

14th November, 2025

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001
Scrip Code: **507779**

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1,
G Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051
Trading Symbol: **KANPRPLA**

Sub: Submission of Newspaper Notice- Notice to Shareholder

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, In addition to our letter dated 08th July, 2025 and 15th September, 2025, we hereby enclose copies of the notice published for the Equity Shareholders of the Company regarding the Special Window for Re-lodgement of Transfer of Physical Shares.

The said notice was published in Business Standard Newspaper on Friday, 14th November 2025 in compliance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02nd July 2025.

Kindly take this on record and oblige.

Thanking You.

Yours Faithfully,
For **KANPUR PLASTIPACK LTD.**

(Ankur Srivastava)
Company Secretary
Encl: A/a

Manufacturers & Exporters:

Flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) | PP Multifilament Yarn | UV Master Batches | Fabrics | CPP Films
CIN: L25209UP1971PLC003444



CIN: L25209UP1971PLC003444
 Regd. Office - D-19-20, Park Industrial Area,
 Kanpur - 208 022 TEL: +91 (0512) 2691 113 - 6;
 FAX: +91 (0512) 2691117;
 Email: secretary@kanplas.com; Web: www.kanplas.com

Special Window for Re-Redemption of Transfer Requests for Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PI/CI/2025/97 dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer a one-time Special Window for shareholders to submit re-redemption requests for the transfer of physical shares.

This Special Window will be open from **July 07, 2025 till January 06, 2026**, and is specifically applicable to cases where the original transfer requests were lodged prior to April 01, 2019, and were returned or rejected due to deficiencies in documentation, process, or any other reason. Kindly note that during this window, shares re-logged for transfer will be processed only in dematerialized (demat) form.

Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) within the stipulated period.

Mr. Ankur Srivastava
 Company Secretary & Compliance Officer
 Kanpur Plastipack Limited
 D-19-20, Park Industrial Area, Kanpur-208022
 Tel: +91 512 2691113-116
 Email: secretary@kanplas.com

Skyline Financial Services Private Limited
 Registrar and Share Transfer Agent
 D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area,
 Phase - I, New Delhi - 110 020
 Tel: +91-11-40450193-97, 26812682-83
 Email id: info@skylinearta.com

For Kanpur Plastipack Limited
 Sd/-
 (Ankur Srivastava)
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kanpur
 Date: 13.11.2025

NOTICE
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED
 Regd. Office: Bajaj Auto Ltd. Complex, Akurdi, Pune, 411035

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Notice is hereby given that certificate(s) for the under mentioned securities of the Company has been lost/misplaced and the holder(s) of the said securities has/have applied to the Company to issue duplicate certificate(s).

Name of Holder(s)	Folio No(s)	Face Value No(s)	Cert. No(s)	Distinctive No(s)	No. of Shares
Amar Sukhi & Clotilda Sukhi	AA0000034	10/-	34	342102 to 342151	50

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate.

Any person who has any claim in respect of the share certificate(s) should lodge such claim with the Company or its Registrars and Transfer Agents: KFIN Technologies, Selenium Building, Tower-B, Hyderabad 500032, Telephone no: 040-67161500 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate.

Name of Holder(s):
Amar Sukhi
Clotilda Sukhi
 12, Rishikesh, Worli, Mumbai-400018

Place: Mumbai
Date: 14-11-2025

The Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking
 (OF THE BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA)

TENDER NOTICE

E-tenders are invited for the supply of following items.

(1) 80954 - DWC HDPE Pipes of Various Sizes, (2) 80955 - Neutral Links/Cutouts of Various Sizes, (3) 80686 - Shock Absorber (Rear),

Re - invited e-tenders

(4) 80496, (5) 80637, (6) 80718, (7) 80758, (8) 80783, (9) 80785, (10) 80787, (11) 80798, (12) 80847.

Note: For more details, log on to website <https://mahatenders.gov.in>

PRO/AAM(M)/78/2025 **GENERAL MANAGER**

केनरा बैंक Canara Bank
 CANARA BANK, REGIONAL OFFICE, THANE, DOSTI PINNACLE, 1ST FLOOR
 ROAD NO 22 NEAR PASSPORT OFFICE THANE WEST-400604

Branch Ref: RO/LEGAL/SARFAESI/251/2025/KALYAN MAIN (0209) Date: 12.11.2025

POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the Canara Bank under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 01.09.2025 (calling upon the borrower MRS. NEETU RAJENDRA SHRIVASTAV (BORROWER), GOPAL KRISHNA PARK, 003 FAWING, 100 FT ROAD, NEAR ASHISH HOTEL, KALYAN, THANE-421306. & MR. RAJENDRA KUMAR SHRIVASTAV (CO-BORROWER), GOPAL KRISHNA PARK, 003 FAWING, 100 FT ROAD, NEAR ASHISH HOTEL, KALYAN, THANE-421306.

to repay the amount mentioned in the notice, being Rs.25,49,637.72 (RUPEES TWENTY FIVE LAKHS FORTY NINE THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY SEVEN & SEVENTY TWO PAISA ONLY), plus unapplied interest and charges within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and public in general, that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rules on this 12th day of NOVEMBER of the year 2025.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CANARA BANK, KALYAN MAIN (0209) Branch for an amount of Rs. 25,23,068.72 (RUPEES TWENTY FIVE LAKHS TWENTY THREE THOUSAND SIXTY EIGHT & SEVENTY TWO PAISA) and interest thereon.

Description of the Immovable Property

Residential Flat No.03, Ground Floor, Admeasuring 615 Sq Ft Built Up Area In "F-A" Wing, Building Known As "Gopal Krishna Park" In "Gopal Krishna Park Wing D.E.F/A/B Co-operative Housing Society" Situated At Kalyan, Taluka Kalyan, Dist- Thane-421306.

Date: 12.11.2025
Place: THANE

Sd/-
AUTHORISED OFFICER
CANARA BANK

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my clients, **Mrs. Babitha Bai** W/o. Shri Ashokkumar Heerachand Jain along with her late husband Shri Ashokkumar Heerachand Jain are the bona fide registered members and shareholders of the Society called Shri Shankheshwar Co-operative Housing Society Ltd. and as such members they are the owners of the residential Flat No. 1602 on the 16th Floor in the society building known as 'Shankheshwar Building' located at 128, V.P. Road, Opp. V.P. Road Police Station, Gangan, Mumbai - 400004 (The said Flat), together with 05 (five) fully paid-up shares of Rs. 100/- each of the said Society bearing Dist. Nos. 291 to 295 (both inclusive) covered under Share Certificate No. 059 dated 8th May, 2017 allotted in respect of the said Flat (hereinafter referred to as 'the said Share Certificate').

The said Share Certificate of the said Society has been lost or misplaced & not in possession of my clients and police complaint in respect thereof lodged with the V.P. Road Police Station, Mumbai, under Lost Report No. 125071-2025 on 22/09/2025.

Any person/s having any claims, objections and encumbrances in respect of the said Flat and the said Shares and if anyone had found the original copy of the said Share Certificate are hereby called upon to handover the same and / or make the same known in writing together with the documentary proof in support thereof to the undersigned at his office at C/o. Dinesh Jain, 410, Kakad Market, 4th Floor, 306, Kalbadevi Road, Mumbai - 400002 within 07 (seven) days from the date of publication of this notice, failing which, the Society shall issue Duplicate Share Certificate in lieu of the lost Share Certificate and claims, objections, if any in the said Flat and the said Shares shall not be entertained or considered and shall be deemed to have been waived or abandoned for all intents and purposes and not binding on my above named clients.

At Mumbai, Dated this 14th day of November, 2025

(Mahendra C. Jain)
 Advocate & Solicitor

NOTICE

This is to inform the general public that Original Share certificate no 43, Distinctive No 43 of Mr Samir Krishnakant Shah, member of Bharat Nagar Co-operative Housing Society Limited situated at Bharat Nagar, E-1 Building, Flat no 402, 342 Grant Road, Mumbai: 400007, Maharashtra has been lost/misplaced. The member of the society is wanting to apply for duplicate shares for his flat no 402 of E-1 building.

The Society hereby invites claims and objections from claimants/objector or objectors for issuance of duplicate Share Certificate within the period of 14 (fourteen) days from the publication of this notice at the Society address mentioned above with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/objections for issuance of duplicate Share Certificate to the Secretary of Bharat Nagar Co-operative Housing Society Limited at the above mentioned address. If no claims / objections are received within the period prescribed above, the Society shall be free to issue duplicate Share Certificate when applied by the member in such manner as is provided under the bye-laws of the Society. The claims/objections, if any, received by the Society shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the Society.

For and on behalf of
 Bharat Nagar Co-operative Housing Society Limited,
 Sd/-
 (Hon. Secretary)

Date: 14.11.2025
Place: Mumbai

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
 Road Construction Department,
 Road Division, Daltonganj.

Short e-Procurement Tender Notice

e-Tender Ref No- 9 /RCD/Daltonganj/2025-26/1032 Dated: 13.11.2025

Sr. No.	Particulars	Details
1.	Name of Work	IROP Work of Shahpur-Garhwa via Budhivver Tildag Road (Total Length - 27.80 Km) for the year 2025-26.
2.	Estimated Cost	Rs. 14,97,25,400.00 (Rupees Fourteen Crore Ninety Seven Lacs Twenty Five Thousand Four Hundred Rupees) Only.
3.	Bid Security (Amount)	Rs. 14,97,300.00 (Rupees Fourteen Lacs Ninety Seven Thousand Three Hundred) Only.
4.	Time of Completion	06 Months
5.	Date of Publication of Tender on Website	18.11.2025, 10:30 AM
6.	Last Date/Time of Online Bid Submission	02.12.2025, 12:00 Noon
7.	Date and Time of Bid opening	04.12.2025, 12:30 PM
8.	Bid (Tender Fee & EMD) Submission Address	Cost of bidding document (for a non refundable fee) & Bid security as indicated shall be payable online through http://jharkhandtenders.gov.in
9.	Name & address of officer Inviting tender	Executive Engineer, R.C.D., Road Division, Daltonganj, 06562-225019
10.	E-mail Id	ecrdmedini-jhr@nic.in
11.	Helpline number of e Procurement cell	0651-2401010

Note: Estimated amount may vary. For further details can be seen on website <http://jharkhandtenders.gov.in>.

Executive Engineer
 Road Construction Department
 Road Division, Daltonganj.
 PR 365968 Road(25-26)#D

CHOKSI ASIA LIMITED
 (Formerly known as CHOKSI IMAGING LIMITED)

Registered Office: 163/164, Choksi Bhuvan, Nehru Road, Vile Parle East, Mumbai 400057
 Tel: 9821669911 Email: imaging@choksiworld.com Website: <https://choksiworld.com>
 CIN: L71200MH1992PLC388063

STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025

(* In Lacs except for per share data)

Particulars	Quarter ended			Six Month Ended		Year ended
	30-09-25	30-06-25	30-09-24	30-09-25	30-09-24	31-03-25
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from operations (net)	1,357.91	1,218.79	865.72	2,576.70	1,669.17	3,856.37
Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	167.01	151.60	103.22	318.61	303.23	472.70
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	134.65	107.43	65.02	242.08	218.31	309.88
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	134.65	107.43	65.02	242.08	218.30	309.86
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	57.01	57.01	57.01	57.01	57.01	57.01
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	-	-	2,579.13
Earnings Per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted #	2.36	1.88	1.14	4.25	3.83	5.44
Earnings Per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted #	2.36	1.88	1.14	4.25	3.83	5.44

Notes:

- The Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 13, 2025. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review on the above results in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and expressed an unmodified conclusion.
- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2025 are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com. The same are also available on the Company's website viz www.choksiworld.com. The same can be accessed by scanning the QR Code provided above.

For Choksi Asia Limited
 Formerly known as Choksi Imaging Limited
 Sd/-
 Jay Choksi
 Whole Time Director
 (DIN 07151509)

Date: 13th November, 2025
Place: Mumbai

DEEPIYOTI TEXTILES LIMITED
 CIN: L27200MH1994PLC083950

Regd. Office: 'Chez Nous', Flat No.1, 1st Floor, JVPD Scheme Gulmohar Cross Road No 7, Mumbai-400 049

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025

(Rs in lakhs)

PARTICULARS	Quarter ended			Half year ended		Year ended
	30-Sep-25	30-Jun-25	30-Sep-24	30-Sep-25	30-Sep-24	31-Mar-25
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
Operating Income	(75.24)	19.70	(78.41)	(55.54)	(108.74)	44.70
Other Income	(26.54)	105.30	3.96	78.76	6.61	5.07
Interest	-	-	-	-	-	-
Net Profit / (Loss) before tax	(112.55)	105.48	(96.39)	(7.07)	(143.20)	(222.95)
Tax	(0.06)	(0.07)	(0.26)	(0.13)	(0.52)	(1.08)
Net Profit / (Loss)	(112.49)	105.55	(96.13)	(6.94)	(142.68)	(221.87)
Equity Share Capital	501	501	501	501	501	501
Reserves	-	-	-	-	-	57.07
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						
Basic	(2.25)	2.11	(1.92)	(0.14)	(2.85)	(4.43)
Diluted	(2.25)	2.11	(1.92)	(0.14)	(2.85)	(4.43)

Notes:

- The above financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 13, 2025.
- These financial results were subject to limited review in terms of Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 by Statutory auditors of the Company who have expressed an unmodified opinion thereon.
- Figures for previous period/year have been re-grouped /re-classified wherever necessary to confirm to current period's/year's classification.
- No adjustment required in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules.
- The full format of the Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 is available on the MSEI Stock Exchange website (www.msei.in) and on the website of the Company (www.dtejtextiles.co.in).

For Deepiyoti Textiles Limited
 Sd/-
 Sanjay Mudra
 Director
 (DIN : 01205282)

Place: Mumbai
Dated: 13 November, 2025

JSW STEEL LTD
 Regd Office : JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051.

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

This is to inform the General Public that following share certificate registered in the name of **SUNDER HENDRAJ ADNANI**, residing at A-7, New Light Plot No. 70 S. V. Road, Khar West, Mumbai - 400052, have been lost/misplaced/untraceable and he has applied to the company to issue duplicate share certificate.

FOLIO NO. JSW0717762

SERIES	DISTINCTIVE Nos	No. OF SHARES
FROM	TO	SHARES
2695086	2415870181	2415872860
		2680

Any person having claim in respect of the said shares should lodge such claims with the Company at its above referred address within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) and no further claim will be entertained by the Company thereafter.

Date: 14/11/2025
Place: Mumbai
 Name of the holder
SUNDER HENDRAJ ADNANI

SILICON VALLEY INFOTECH LIMITED
 CIN: L15311WB1993PLC061312

Regd Office : 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072
 Email : silivalley@gmail.com, website : www.siliconvalleyinfo.co.in
 Phone No. : 033-40022880, Fax : 033-22379053

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025 (Rs. In Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended
		30.09.2025 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	0.00	0.00	0.02	0.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items #)	(7.12)	(9.25)	(5.68)	(16.37)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items #)	(7.12)	(9.25)	(5.68)	(16.37)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items #)	(7.12)	(12.64)	(5.68)	(5.52)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(7.12)	(53.29)	(5.68)	(53.29)
6	Equity Share Capital	1296.80	1296.80	1296.80	1296.80
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)	(0.01)	0.01	(0.00)	(0.00)
	1. Basic :	(0.01)	0.01	(0.00)	(0.00)
	2. Diluted :	(0.01)	0.01	(0.00)	(0.00)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. www.bseindia.com and www.cse-india.com and on the Company's website: www.siliconvalleyinfo.co.in
- The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
- # - Exceptional and/or Extraordinary Items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For SILICON VALLEY INFOTECH LTD
 Sd/- SANTOSH KUMAR JAIN, Managing Director
 Place : Kolkata
 Date : 12th November, 2025
 DIN : 00174235

YES BANK Registered Office: Yes Bank House, Western Express Highway, Santacruz (E), Mumbai, 400 055
 Branch: 19th Floor, C Wing, Empire Tower, Reliable Tech Park, Cloud City Campus, Plot No. 31, Thane-Belapur Road, Airoli, Navi Mumbai - 400708

Possession Notice for immovable property

Whereas, The undersigned being the authorised officer of YES Bank Limited ("Bank") under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") and in exercise of the powers conferred under section 13(12) of the Act read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, had issued a below mentioned demand notice to respective borrowers calling upon them to repay the below mentioned amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The Borrower / security providers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ security providers and to the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules.

The Borrower / security providers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties mentioned below and any dealings with the said properties will be subject to the charge of the Bank for below mentioned amount, together with all the other amounts outstanding including the costs, charges, expenses and interest thereto.

This is to bring to your attention that under Sec.13(8) of SARFAESI Act, where the amount of dues of the secured creditor together with all costs, charges and expenses incurred by secured creditor is tendered to the secured creditor at any time before the date of publication of notice for the public auction/ tender/ private treaty, the secured asset shall not be sold or transferred and no further steps shall be taken for transfer or sale of that secured asset.

Details of the Possession Notice/Borrowers/ Mortgaged Property

Sr. No.	Loan A/c No.	Name of Borrower & Co-borrowers, Guarantors, Mortgagor/ Security Provider	Description of Mortgaged Property (Full address as per 13(2) notice)	Total claim amount as per 13(2) notice	Date of 13(2) Notice	Date of 13(4) Possession Taken
1	AFH02 250189 6653	Deepali S Dhaware (Borrower & Mortgagor) Anitya Sushil Dhaware (Co-Borrower & Mortgagor)	Flat No.609, Area Admeasuring 21.45 Sq. Mtrs. 6th Floor, C Wing, Planet Highlands, Survey No.68, Hissa No.3B, Village Neral, Tal. Karjat, Dist. Raigad - 410 101 Owned by Deepali S Dhaware and Anitya Sushil Dhaware	Rs. 13,84,250.63/-	26-08-2025	12-11-2025

Place: Mumbai
Date: 12.11.2025

Sd/- (Authorized Officer)
Yes Bank Limited

ELGI Rubber Company Limited
 CIN: L25119TZ2006PLC013144

Regd. Office: Super A Unit, Coimbatore Private Industrial Estate, Kuruchi, Coimbatore - 641021, TamilNadu
 Telephone No.: 0422-4321000 E-mail Id: info@in.elgirubber.com Website: www.elgirubber.com

Extract of consolidated unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025

(Rs. in Lakhs, except EPS)

Sl. No.	Particulars	Consolidated					
		Quarter ended			Half Year ended		Year ended
		Sep 30, 2025 (unaudited)	Jun 30, 2025 (unaudited)	Sep 30, 2024 (unaudited)	Sep 30, 2025 (unaudited)	Sep 30, 2024 (unaudited)	March 31, 2025 (audited)
1	Total Income from Operations	9,699.48	9,486.28	9,796.29	19,185.76	20,614.25	39,995.52
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(646.34)	5.33	(454.13)	(641.01)	87.08	(2,142.26)
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and after exceptional items)	(593.80)	5.33	(454.13)	(588.47)	1,595.10	(450.54)
4	Net Profit/ (Loss) for the period (after tax and after exceptional items)	(601.02)	(151.45)	(412.77)	(752.47)	1,615.64	(436.01)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(603.37)	(153.82)	(407.96)	(757.18)	1,625.27	(445.45)
6	Paid up equity share capital (face value of Rs.1/- each)	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,408.74
8	Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)	(1.20)	(0.30)	(0.82)	(1.50)	3.23	(0.87)
	a. Basic (in Rs.)	(1.20)	(0.30)	(0.82)	(1.50)	3.23	(0.87)
	b. Diluted (in Rs.)	(1.20)	(0.30)	(0.82)	(1.50)	3.23	(0.87)

Key numbers of standalone financial results

Sl. No.	Particulars	Standalone					
		Quarter ended			Half Year ended		Year ended
		Sep 30, 2025 (unaudited)	Jun 30, 2025 (unaudited)	Sep 30, 2024 (unaudited)	Sep 30, 2025 (unaudited)	Sep 30, 2024 (unaudited)	March 31, 2025 (audited)
1							



स्ट्रेडज एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप, कॉर्पोरेट सेंटर,
द आर्केड, दूसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड केंद्र, कफ परेड, मुंबई - 400005

ई-नीलामी के माध्यम से पात्र खरीदारों
(अनुमत स्थानान्तरणकर्ता (एनडीएफसी/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं) एआरसी) को
स्ट्रेडज लोन एक्सचेंज का हस्तांतरण

भारतीय स्टेट बैंक पात्र प्रतिभागियों से, भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य नियामकों द्वारा जारी लागू विनियमों के अधीन, एक खाले के ₹41.71 करोड़ (मात्र इकतालीस करोड़ इकहतर लाख रुपये) के मूल निधि आधारित बकाया के स्ट्रेडज लोन एक्सचेंज के हस्तांतरण हेतु 'जैसा है जैसा है'; 'जैसा है वैसा है'; 'जो कुछ है वही'; और 'बिना किसी उत्तरदायित्व के आधार पर' ई-नीलामी के माध्यम से, रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। सभी इच्छुक पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 'रुचि की अभिव्यक्ति' के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें। पात्र प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे ई-प्रकटीकरण समझौता (वेब नोटिस में उल्लिखित समयावधि के अनुसार) निष्पादित करें। यदि गैर-प्रकटीकरण समझौता निष्पादित नहीं होता है, तो कृपया ई-मेल आईडी dgm.sr@sbi.co.in पर संपर्क करें। कृपया बैंक की वेब साइट <https://bank.sbi> पर जाएं और अधिक विवरण "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" में लिंक पर क्लिक करें (वेब नोटिस)।

कृपया ध्यान दें कि बैंक किसी भी कारण पर प्रस्तावित ई-नीलामी को आगे न बढ़ाने या ई-नीलामी को तिथि अथवा किसी भी नियम व शर्तों में बिना कोई कारण बताए बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना <https://bank.sbi> वेबसाइट पर "SBI in the news > Auction Notices > ARC & DRT" लिंक के तहत संशोधन सूचना (Corrigendum) के रूप में दी जाएगी। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और शाश्वती होगा।

स्थान: मुंबई द्वारा जारी
तिथि: 14.11.2025 उप-महाप्रबंधक (क्रेडिट और एआरसी)

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED
A Tata Power and Delhi Government Joint Venture
TATAPOWER-DDL Regd. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi-110 009
CIN No. U40109DL2001PLC111526, Website: tatapower-dtl.com

NOTICE INVITING TENDERS

TATA Power-DDL invites tenders as per following details:
As per the guidelines issued by Government of India & approval given by Hon'ble DERC, Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) is inviting Long Term Bids for Procurement of FDRE Power with ESS as per details provided in table below:

Tender Enquiry No. Work Description	EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of RFS/Bid Submission
TPDDL/PMG/Tender/FDRE-Power/Purchase-2025-26/01 Notice Inviting bids for procurement of 200 MW FDRE Power with ESS with a Green shoe option of contracting additional 200 MW from ISTS connected RE Power Projects in India through competitive bidding process.	As per the tender documents	14.11.2025	06.12.2025; 1800 Hrs

For more details please visit <https://www.bharat-electronicstender.com> and Tata Power website <https://www.tatapower-dtl.com>.

HoD - Power Management Group
Tata Power-Delhi Distribution Limited, Technology Centre- 110034

यूको बैंक UCO BANK
Honours Your Trust
(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय - II,
सू.प्र. वि. - खरिद एवं अवरसंचना
3 और 4, कोडी ब्लाक, सेक्टर-1, साहू लेक,
कोलकाता - 700064

निविदा की सूचना

यूको बैंक निम्नलिखित मद के लिए निविदा आमंत्रित करता है:-
1. विडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मौजूदा पीसी के लिए 10000 विस्तारित सूत्रा अद्यतन (ईएसयू)
लाइसेंस की आपूर्ति और स्थापना के लिए विक्रेता का चयन।
अधिक विवरण के लिए कृपया <https://www.uco.bank.in> और <https://gem.gov.in> वेबसाइट पर देखें।

दिनांक : 14.11.2025 (उप-महाप्रबंधक)
सू.प्र.वि. - खरिद एवं अवरसंचना

KANPUR PLASTIPACK LTD
CIN: L25209UP1971PLC003444
Regd. Office - D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur - 208 022 TEL: +91 (0512) 2691 113 - 6;
FAX: +91 (0512) 2691117;
Email: secretary@kanplas.com ; Web: www.kanplas.com

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests for Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CI/R/2025/97 dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer a one-time Special Window for shareholders to submit re-lodgement requests for the transfer of physical shares.
This Special Window will be open from **July 07, 2025 till January 06, 2026**, and is specifically applicable to cases where the original transfer requests were lodged prior to April 01, 2019, and were returned or rejected due to deficiencies in documentation, process, or any other reason.
Kindly note that during this window, shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized (demat) form.
Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) within the stipulated period.

Mr. Ankur Srivastava
Company Secretary & Compliance Officer
Kanpur Plastipack Limited
D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur-208022
Tel: +91 512 269113-116
Email: secretary@kanplas.com

Skyline Financial Services Private Limited
Registrar and Share Transfer Agent
D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110 020
Tel: +91-11-40450193-97, 26812682-83
Email: info@skylineintra.com

For Kanpur Plastipack Limited Sd/-
(Ankur Srivastava)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kanpur
Date: 13.11.2025

PUBLIC NOTICE

Caution against fraudulent WhatsApp Groups, Websites & Impersonation Activities

It has come to the notice of Systematix Group that unknown persons misusing our name, logo, and identity have created several fraudulent WhatsApp groups, websites, Reels, mobile applications and social media channels etc. These entities are using AI-generated photographs of our senior employee, fake SEBI registration certificates, and fabricated membership forms to deceive and extort money from investors.

Please note:

- We do not operate any WhatsApp Group to solicit Investments
- Do not download any app through link or unverified sources.
- Systematix group does not operate, solicit, or accept investments through WhatsApp, third-party links, or any unofficial communication channels.

Further, note that:

- We have only one official Telegram channel: Systematix Group official.
- Always verify the information through our official website. www.systematixgroup.in
- Do not share the personal or financial information with unverified sources.

Important: We urge investors to remain vigilant and verify all investment offers only through our official website. any person dealing with such fake entities does so at their own risk. Systematix Group shall not be responsible for any financial loss, data theft, or other consequences arising therefrom. We are taking all necessary legal and regulatory actions to curb such fraudulent activities and safeguard investors' interests.

SYSTEMATIX SHARES AND STOCKS (INDIA) LTD.

SEBI REG. NO. INZ000171134
Regd. Office : The Capital, A Wing, 6th Floor, Nos. 603-606, Plot No. C-70, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीआईएन नंबर: L29222DL1976PLC008129

पं.का.: कोर-2, पहली मंजिल, 'स्कोप मीनार', प्लॉट नंबर 2ए और 2बी,

लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110091

'ड्रेज हाउस', एचबी कॉलोनी मेन रोड, सीतामधारा, विशाखापत्तनम-530 022

ई-मेल : kalabhinetri@dcil.co.in, दूरभाष: 0891-2523250;

फैक्स: 0891-2560581; वेबसाइट: www.dredge-india.com

30 सितम्बर, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30/9/25	समाप्त तिमाही 30/9/24	समाप्त छमाही 30/9/25	समाप्त छमाही 30/9/24	समाप्त वर्ष 31/03/25
1	परिचालनों से कुल राजस्व	21178.80	20449.67	45403.27	35529.28	114213.87
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा असाधारण मदों से पूर्व)	-3306.76	-5528.00	-5626.19	-8626.43	-4413.67
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा असाधारण मदों के पश्चात)	-3306.76	-3297.20	-5626.19	-6395.63	-2608.56
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा असाधारण मदों के पश्चात)	-3417.66	-3350.59	-5750.91	-6491.07	-2745.66
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (हानि) [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर]	-3417.66	-3350.59	-5750.91	-6491.07	-3379.65
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00
7	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर आरक्षितियां			113005.78	116239.14	119349.01
8	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित			0	0	0
9	निवल मूल्य			115805.78	119039.14	1223149.01
10	निवल ऋण इक्विटी अनुपात			0.91:1	0.52:1	0.76:1
11	ऋणपत्र मोचन आरक्षी			0	0	0
12	ऋण सेवा कवरेज अनुपात			0.24:1	0.03:1	0.93:1
13	व्याज सेवा कवरेज अनुपात			1.99:1	0.21:1	3.86:1
14	आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु. में)					
	(क) बेसिक	-12.21	-11.97	-20.54	-23.18	-12.07
	(ख) डाइल्यूटेड	-12.21	-11.97	-20.54	-23.18	-12.07

नोट :

- उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 और विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। इसका पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट - www.nseindia.com, www.bseindia.com, www.cseindia.com और कंपनी की वेबसाइट - www.dredge-india.com पर उपलब्ध है।
- सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 52(4) के उप-खंड (ए), (बी), (डी) और (ई) में संदर्भित मदों के लिए, प्रासंगिक प्रकटीकरण मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में किए गए हैं और इन्हें www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट - www.dredge-india.com पर देखा जा सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हस्ता./-

स्थान: विशाखापत्तनम,

दिनांक: 12-11-2025

(कैप्टन एस. दिवाकर)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अतिरिक्त प्रभार)

इंडिया एक्जिम बैंक India Exim Bank भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय: केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई-400005

दूरभाष: (022) 22172619, 22172628, 22172693 | फैक्स: (022)-22182497

वेबसाइट: www.eximbankindia.in

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए गैर लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	विवरण	30.09.2025 को समाप्त तिमाही (गैर-लेखा परीक्षित)	30.09.2024 को समाप्त तिमाही (गैर-लेखा परीक्षित)	30.09.2025 को समाप्त छमाही (गैर-लेखा परीक्षित)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
1	कुल परिचालन आय	4,748.67	4,380.26	10,183.76	18,325.51
2	इस अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर - पूर्व, विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	1,317.10	896.10	3,186.12	4,297.26
3	इस अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	1,317.10	896.10	3,186.12	4,297.26
4	इस अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	987.62	679.50	2,376.87	3,243.15
5	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	15,909.37	15,909.37	15,909.37	15,909.37
7	आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)	9,561.93	6,984.93	9,561.93	9,903.08
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	नेटवर्थ	25,471.30	22,894.30	25,471.30	25,812.45
10	चुकता ऋण पूंजी/बकाया ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	ऋण इक्विटी अनुपात	6.50 : 1	6.85 : 1	6.50 : 1	6.94 : 1
13	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु./- का) (चाहू एवं बंद किए जा चुके परिचालनों के लिए) - 1. मूल : 2. कम करने के पश्चात:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	ऋण चुकोती कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	व्याज चुकोती कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट:

- उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा 12 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 13 नवंबर, 2025 को आयोजित बैठक में इन्हें अनुमोदित किया गया है।
- उपरोक्त विवरण सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही/छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/छमाही परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बैंक की वेबसाइट (<https://www.eximbankindia.in/investor-relation>) और एनएसई की वेबसाइट (<https://www.nseindia.com>) पर उपलब्ध है।
- सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 52 (4) में संदर्भित अन्य मदों से संबंधित प्रकटीकरण एनएसई को किए गए हैं और इन्हें (<https://www.nseindia.com>) पर एक्सेस किया जा सकता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-

हर्रा बंगशी

प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 नवंबर, 2025

DOLLAR WEAR THE CHANGE

DOLLAR INDUSTRIES LIMITED

(CIN : L17299WB1993PLC058969)

Registered Office : OM Tower | 15th Floor | 32, J.L. Nehru Road | Kolkata - 700 071 | West Bengal | India
Phone No : 033-2288 4064-66 | Fax : 033-2288 4063 | E-mail : investors@dollarglobal.in | Website : www.dollarglobal.in

Extracts of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2025

Sl No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Three Months Ended	Corresponding Three months in previous year	Year to date	Previous Year to date	Three Months Ended	Corresponding Three months in previous year	Year to date	Previous Year to date
		30-09-2025 (Unaudited)	30-09-2024 (Unaudited)	30-09-2025 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)	30-09-2025 (Unaudited)	30-09-2024 (Unaudited)	30-09-2025 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	47,028.94	44,582.80	85,414.04	1,68,218.59	47,185.72	44,687.25	87,098.34	1,71,045.97
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	4,743.51	3,431.42	7,314.96	11,754.83	4,627.51	3,420.44	7,463.86	12,383.13
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	4,743.51	3,431.42	7,314.96	12,073.69	4,627.51	3,420.44	7,463.86	12,383.13
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	3,549.14	2,642.94	5,511.61	9,033.15	3,475.30	2,641.63	5,654.84	9,222.03
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	3,569.25	2,655.98	5,551.83	9,113.57	3,495.41	2,654.67	5,695.06	9,303.71
6	Equity Share Capital	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	85,350.22	-	-	-	84,459.62
8	Earnings per share (Face value of ₹2/- each) (for continuing and discontinued operations)-								
	Basic and Diluted (Not Annualised for the quarter)*	6.26	4.66	9.72	15.93	6.20	4.67	9.96	16.05

* Includes Exceptional and/or Extra-ordinary Items.

Not Annualised except for the year ended March 31, 2025.

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Unaudited Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results are available on the website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.dollarglobal.in).

2 The Company has prepared the Consolidated Financial Statement on quarterly and half yearly basis and the Consolidated Financial figures include joint venture of the Company viz. Pepe Jeans Innerfashion Private Limited and subsidiary viz. Dollar Garments Private Limited.

3 The Board in its meeting held on 26th September, 2025 had approved Composite Scheme of Arrangement under Sections 230 to 232 & other applicable sections of the Companies Act, 2013 amongst Dollar Industries Limited (Transferor Company), Dindyal Texpro Private Limited ("Demerged Company"), ADDS Projects Private Limited ("Transferor